



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]
No. 6]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2008/पौष 14, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2008/PAUSA 14, 1929

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2008

सं. एफ. 6-24/2004-सी एण्ड एम (विशेष प्रकोष्ठ).—
श्री गुरुग्रन्थ साहिब की गुरु-ता-गद्दी की त्रि-शताब्दी मनाने हेतु
राष्ट्रीय समिति के गठन के संबंध में दिनांक 3-4-2007 की
अधिसूचना संख्या 6-24/2004-सी. एण्ड एम. (विशेष प्रकोष्ठ) के
क्रम में उक्त समिति में एतद्वारा सहयोजित सदस्यों के रूप में
निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाता है :—

1. श्री बी. एस. लल्ली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार
भारती, नई दिल्ली ।
2. श्री संजय दत्त, सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद ।
3. श्रीमती अनूसयातई खेडकर, सदस्य, विधान सभा
(नांदेड़), महाराष्ट्र ।

लव वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2008

No. F. 6-24/2004-C&M (Spl. Cell).—In continuation
of Notification No. 6-24/2004-C&M (Spl. Cell) dated
3rd April, 2007, regarding constitution of a National Committee
for commemoration of Ter-Centenary of Guru-ta-Gaddi of Shri
Guru Granth Sahib, following members are hereby included as
Co-opted Members in the said Committee :—

1. Shri B. S. Lalli, Chief Executive Officer, Prasar
Bharti, New Delhi.
2. Shri Sanjay Dutt, Member, Maharashtra
Legislative Council.
3. Smt. Anusayatai Khedkar, MLA from Nanded,
Maharashtra.

LOV VERMA, Jt. Secy.